



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, अक्टूबर 4—अक्टूबर 10, 2015, शनिवार/आश्विन 12—आश्विन 18, 1937  
No. 28] NEW DELHI, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2015, SATURDAY/ASVINA 12—ASVINA 18, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके ।  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2015

**आ.अ. 95.**—यतः, आयोग ने 60-रूपौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में हुए बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दिलीप जायसवाल, ग्राम-रामपुर परिहट, पो.-चपहरी-थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया, बिहार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन अपने दिनांक 26 फरवरी, 2014 के आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 द्वारा संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए अथवा होने के लिए निरहंत कर दिया था ।

और, यतः, उक्त श्री दिलीप जायसवाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दिनांक 2-9-2014 दायर की थी और अपनी उस अपील में बताए गए कारणों के आधार पर निरहंता हटाने के लिए अनुरोध किया था ।

और यतः, सक्षम प्राधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लेने के लिए उपरोक्त आवेदक की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने का निर्णय लिया और उसकी सुनवाई करके अपने आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के द्वारा यह निर्णय लिया कि उक्त श्री दिलीप जायसवाल पर दिनांक 26 फरवरी, 2014 के आदेश सं. 76/बिहार-वि.स./2010 के द्वारा आरोपित निरहंता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी ।

अतः, अब, आयोग के तारीख 26 फरवरी, 2014 के आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 के साथ संलग्न सारणी की क्रम संख्या 20 पर स्थित श्री दिलीप जायसवाल का नाम 1 अक्टूबर, 2015 से हटा दिया जाएगा ।

[सं. बिहार-वि.स./60/2010]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### ORDER

New Delhi, the 1st October, 2015

**O. N. 95.**—Whereas, the Commission, vide its Order No. 76/BR-LA/2010 dated 26th February, 2014 had disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 Sh. Dilip Jaiswal, Vill-Rampur Parihat, P.O.-Chapahari, P.S.-Rupauli, Dist.-Purnia, Bihar a contesting candidate for the General Election to the Bihar Legislative Assembly from 60-Rapauli Assembly Constituency, held in the year 2010, for being chosen as, and for being a member of either House of the People or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a Period of three years, for not lodging his account of election expenses in the manner required by law.

And, whereas, the said Sh. Dilip Jaiswal had preferred an appeal dated 2-9-2015 under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 against the said order and had requested for the removal of the disqualification for the reasons stated in the said appeal.

And, whereas, the competent authority decided to give a personal hearing to the aforesaid applicant for deciding the appeal under section 11 of the Representation of People Act, 1951 and having heard him, has decided, vide its order dated 1st October, 2015 that the disqualification imposed on said Sh Dilip Jaiswal, vide Order No. 76/BR-LA/2010 dated 26th February, 2014 shall be revoked with immediate effect.

Now, therefore, the name of Sh. Dilip Jaiswal, appearing at Serial No. 20 of the Table appended with Commission's Order No. 76/BR-LA/2010 dated 26th February, 2014, shall be omitted w.e.f. 1st October, 2015.

[No. BR-LA/60/2010]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Principal Secy.